

कार्यालय प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT- I)**  
**MADHYA PRADESH, AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002**

दिनांक – 27/01/2021

**कार्यालय आदेश / Office Order – 243**

इस कार्यालय के संवर्ग नियंत्रणाधीन कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली का कार्यालय, शाखा— ग्वालियर में कार्यरत कुमारी पूजा त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (02/10822) को कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उदयोग एवं कॉरपोरेट कार्य, नई दिल्ली में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर उनके द्वारा स्वीकार की गयी शर्तों पर तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक— 29.01.2021 (अप) को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उदयोग एवं कॉरपोरेट कार्य, नई दिल्ली में कार्यग्रहण करें।

Consequent upon selection of Kumari Pooja Tyagi, Assistant Audit Officer (02/10822) posted in the O/o Director General of Audit (Central Reciept) New Delhi, Branch- Gwalior under cadre control of this office, on deputation basis for the post of Assistant Audit Officer in the O/o Principal Director of Audit, Industry & Corporate Affairs, New Delhi under general terms and conditions of deputation as well as the terms and conditions issued by Government Of India from time to time and accepted by her, she is relieved on 29.01.2021 (AN) and is directed to join the O/o Principal Director of Audit, Industry & Corporate Affairs, New Delhi.

उक्त स्थानान्तरण लोकहित में नहीं है ।

**Aforesaid transfer is not in public interest.**

उपरोक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उधारग्रहीता विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को तुरन्त दें।

She shall immediately intimate her joining in the aforesaid office, to this office, through the borrowing office.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.ए.वी. 14017/30/2006 स्था.(आर.आर.) दिनांक 29.11.2006, जिसे मुख्यालय के पत्र क्रमांक-19 लेखापरीक्षा (नियम)66-2002(KW)/IX -2007(10) दिनांक 06.03.2007 द्वारा अग्रेषित किया गया है, में उल्लेखित निम्न अन्य शर्तों द्वारा प्रतिनियुक्ति नियमित की जाती है—

The deputation will be regularized in terms of the following other conditions contained in Do.P.T.O.M.No.A.V.14017/30/2006 Estt.(R.R.) dated 29.11.2006 received with Headquarters' letter no.19 Audit (Rules)66-2002(KW)/IX-2007(10)dated 06.03.2007:-

1 प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति दिनांक— 28.01.2022 तक के लिए होगी तथा प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी को अवधि समाप्त होने पर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना होगा। कार्यमुक्त करने के लिए अलग से कोई आदेश नहीं दिये जायेंगे।

The deputation will be for one year and the officer on deputation will have to be compulsorily relieved on 28.01.2022 No separate order will be issued for her relieving.

2 प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी तथा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर कार्यभार से मुक्त माना जायेगा, सिवाय उस स्थिति में जब सक्षम अधिकारी ने उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित में उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाये जाने के लिये अपेक्षित अनुमोदन दे दिया है। प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी का ओवरस्टे न हो यह सुनिश्चित करना उसके अगले उच्च अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं— DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010 के अनुसार यदि उधारग्रहीता कार्यालय अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति निर्धारित अवधि से आगे बनाया रखना चाहते हैं तो उन्हें उधारदाता कार्यालय एवं संबंधित अधिकारी से सहमति हेतु छह माह पूर्व कार्यवाही प्रारंभ करना चाहिए।

Deputation period will not be extended and she will be treated as relieved **unless** the Competent Authority approves in writing to extend the deputation period before its completion. It will be the responsibility of next higher authority to avoid overstaying of staff on deputation. As per para 8.3.1 (ii) of DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010, If the borrowing organisation wishes to retain an officer beyond the prescribed tenure, it shall initiate action for seeking concurrence of lending organisation, individual concerned etc. **six months** before the date of expiry of tenure.

3 यदि किसी भी कारण से अधिकारी अधिक दिनों, तक बना रहता है, तो वह अनुशासनिक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सिविल सेवा परिणाम के लिये जिम्मेदार होगा जिसमें शामिल होगा कि अनाधिकृत रूप से अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि की पेंशन के प्रयोजन के लिये सेवा नहीं गिना जायेगा तथा अनाधिकृत रूप से अधिक दिनांक तक बने रहने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तब तक आस्थगित रहेगी जब तक कि सम्बन्धित अधिकारी अपने मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

In the event the officer overstaying for any reason whatsoever, she

will be liable to

disciplinary action and other adverse Civil/Service consequences which would include that period of unauthorized overstay shall not count against service for the purpose of pension and that any increment due during the period of unauthorized overstay shall be deferred, with cumulative effect, till the date on which the officer rejoins her parent cadre.

4 टी.ए./मेडिकल क्षतिपूर्ति/सी.ई.ए./एल.टी.सी. तथा सी.जी.एच.एस. स्कीम के अन्तर्गत लाभ भारत सरकार द्वारा समय पर जारी नियमों/आदेशों के अनुसार लागू होंगे।

The benefits under TA/Medical Claim/C.E.A/L.T.C & CGHS Scheme will be applicable as per the terms and conditions issued by Government Of India time to time.

(प्राधिकार:—प्रधान महालेखाकार के आदेश दिनांक .....)

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन—11  
दिनांक – 27/01/2021

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—**

- 1 सचिव, कार्यालय प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
- 2 निदेशक, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली का कार्यालय, शाखा— ग्वालियर।
- 3 उप महालेखाकार/ए.एम.जी— 5 (प्रषा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार ( लेखापरीक्षा— प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
- 4 उप निदेशक/प्रशासन, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उदयोग एवं कॉरपोरेट कार्य, ए.जी.सी. आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली— 110002।
- 5 वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, म.प्र., ग्वालियर।
6. उप निदेशक (लेखापरीक्षा) डाक एवं दूरसंचार, एनेक्सी संचार भवन, BSNL कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड,भोपाल।
- 7 वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /सामान्य स्थापना, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली का कार्यालय, शाखा— ग्वालियर को इस आषय के साथ कि कुमारी पूजा त्यागी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (02/10822) को दिनांक – 29.01.2021 (अप.) को सीधे प्रतिनियुक्ति कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर सूचित करने का कष्ट करें।
- 8 भुगतान एवं लेखा अधिकारी प्रभारी पी.ए.ओ. 2/5, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम लेखा भवन, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
- 9 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन – 12,13,14, गोपनीय कक्ष, सामान्य अनुभाग, Training/Exam, ITA
- 10 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई. एस. एण्ड डी.ए.सी, को इन्ट्रानेट पर “Administration- Personnel” लिंक एवं कार्यालय की वेबसाइट पर अन्तर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 11 श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय / स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 12 महामंत्री, एस.ए.एस. ऑडिट ऑडिट वेलफेयर ऐसोसिएशन, ग्वालियर।
- 13 संबंधित अधिकारी

- 14 सूचना पटल/ऑडिट भवन ।
- 15 गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन-11